

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2010—पौष 25, शक 1931

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

### प्रपत्र

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री सुरेश प्रसाद त्रिवेदी	नायब तहसीलदार, मोहनगढ़	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	चकरपुर चौकी
2	श्री वी.वी. नकीब	नायब तहसीलदार, जतारा	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	कनेरा चौकी
3	श्री जी.पी. श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार, तरीचरकलां	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	खजरी चौकी
4	श्री रघुवीर सिंह निरंजन	नायब तहसीलदार, बल्देवगढ़	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	खरगापुर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2010

## आदेश

क्र.-स्था.निर्वा.-2010-1699.—त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के सुचारू एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिये निम्नानुसार कॉलम (2) में अंकित दिनांक को कालम (4) में अंकित थाना क्षेत्र के लिये कॉलम (3) में अंकित अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है।

क्र. (1)	दिनांक (2)	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम (3)	थाना/कोतवाली का नाम (4)
<b>विकासखण्ड, टीकमगढ़</b>			
1	18-1-10	श्री आर. पी. तिवारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी	कोतवाली टीकमगढ़
2	18-1-10	श्री विनय रिछारिया, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़	बुडरा
3	18-1-10	श्री आर. आर. चढ़ार, अति. तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बड़ागांव	बड़ागांव
4	18-1-10	श्री के. आर. कतरौलिया, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर	बल्देवगढ़
5	18-1-10	श्री सतीश वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ओरछा	जतारा
6	18-1-10	श्री अनिल तलैया, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर	अस्तौन चौकी
7	18-1-10	श्री विजय राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर	खिरिया नाका चौकी
<b>विकासखण्ड, बल्देवगढ़</b>			
1	18-1-10	श्री के. आर. कतरौलिया, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर	बल्देवगढ़
2	18-1-10	श्री आर. एस. निरंजन, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, खरगापुर	खरगापुर
3	18-1-10	श्री रोहित वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कुड़ीला	कुड़ीला
4	18-1-10	श्री विनय रिछारिया, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़	बुडरा
5	18-1-10	श्री सतीश वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ओरछा	देवरदा चौकी
6	18-1-10	श्री गुलाब सिंह बागला, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जतारा	देरी चौकी
<b>विकासखण्ड, जतारा</b>			
1	21-1-10	श्री आर. आर. वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बल्देवगढ़	जतारा
2	21-1-10	श्री गुलाब सिंह बागला, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जतारा	लिधौरा
3	21-1-10	श्री विवेक धारू, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर	दिगौड़ा
4	21-1-10	श्री सुरेश प्रसाद त्रिवेदी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, मोहनगढ़	मोहनगढ़
5	21-1-10	श्री सतीश वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ओरछा	चंदेरा चौकी
<b>विकासखण्ड, पलेरा</b>			
1	21-1-10	श्री प्रकाश नायक, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़	पलेरा
2	21-1-10	श्री गुलाब सिंह बागला, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जतारा	लिधौरा
3	21-1-10	श्री आर. आर. वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बल्देवगढ़	जतारा
4	21-1-10	श्री आर. पी. तिवारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी	टेहरका
5	21-1-10	श्री बी. बी. नकीब, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जतारा	कनेरा चौकी
6	21-1-10	श्री विजय कुमार सेन, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर	बम्होरी कला चौकी
7	21-1-10	श्री जी. पी. श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी	खजरी चौकी
8	21-1-10	श्री सतीश वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ओरछा	चंदेरा चौकी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>विकासखण्ड, पृथ्वीपुर</b>				
1	24-1-10	श्री सुरेन्द्र दोहरे, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जतारा		पृथ्वीपुर
2	24-1-10	श्री अनिल तलैया, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर		जैरोन
3	24-1-10	श्री विवेक धारू, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर		सिमरा
4	24-1-10	श्री विजय राज, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पृथ्वीपुर		निवाड़ी
<b>विकासखण्ड, निवाड़ी</b>				
1	24-1-10	श्री प्रकाश नायक, तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़		निवाड़ी
2	24-1-10	श्री सतीश वर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, ओरछा		ओरछा
3	24-1-10	श्री जी. पी. श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ी		सेंदरी
4	24-1-10	श्री विनय रिछारिया, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़		टेहरका
5	24-1-10	श्री गुलाब सिंह बागला, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जतारा		तरीचरकला चौकी
6	24-1-10	श्री सुरेश प्रसाद त्रिवेदी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, मोहनगढ़		चकरपुर चौकी

उक्तानुसार समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने सेक्टर क्षेत्र की संपूर्ण कानूनी व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे.

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	जोनल अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	1-हीरानगर	डॉ. डी.के. गौतम, उप संचालक, पशु चिकित्सा, टीकमगढ़
2	2-बडोराघाट	श्री डी.पी. पाठक, सहायक यंत्री, पी.डब्ल्यू.डी., टीकमगढ़
3	3-शिवपुरी	श्री पी.के. पाल, जिला परियोजना प्रबंधक, डी.पी.आई.पी., टीकमगढ़
4	4-हजुरीनगर	श्री आर.एन. अग्निहोत्री, सहायक संचालक, मत्स्य, टीकमगढ़
5	5-मदई	श्री डी.के. शर्मा, सहा. यंत्री, जिला पंचायत, टीकमगढ़
6	6-लखोरा	श्री बी.डी. रतमेल्ले, सहायक यंत्री, जल संसाधन, टीकमगढ़
7	7-माडूमर	श्री भोला प्रसाद पटेल, सहायक यंत्री, एम.पी.ई.बी., टीकमगढ़
8	8-अस्तौन	श्री जी.एस. डेहारिया, उपायुक्त, सहकारिता, टीकमगढ़
9	9-लार	श्री प्रभात खरे प्रबंधक, ग्रामउद्योग, टीकमगढ़
10	10-समर्ग	श्री आलोक तिवारी, सहा. प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, टीकमगढ़
11	11-अजनौर	श्री जे.पी. रोहित, एस.डी.ओ., आर.ई.एस., टीकमगढ़
12	12-बुढ़ेरा	श्री टी.आर. शाक्य, सहायक यंत्री, पी.एच.ई., टीकमगढ़
13	13-डिकौली	श्री जे.पी. नायक, बी.डी.ओ. जनपद पंचायत, टीकमगढ़
14	14-दरगुंवा	श्री अनिल बिरथरे, एस.डी.ओ. जल संसाधन, टीकमगढ़
15	15-डूड़ा	श्री एस.आर. यादव, प्राचार्य, डाईट, कुण्डेश्वर
16	16-भैसवारी	डॉ. डी.के. विश्वकर्मा, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, ज.पं., टीकमगढ़
17	17-ककरवाहा	डॉ. के.पी. पटैरिया, सहायक शल्य चिकित्सक, पशु चिकित्सा, टीकमगढ़

रिजर्व जोनल अधिकारी :

1. श्री एम.एस. सिकरवार, जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़
2. श्री ओ.एन. गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, टीकमगढ़
3. श्री बी.एस. राजपूत, परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, पलेरा.

क्र. (1)	जोन क्रमांक एवं नाम (2)	जोनल अधिकारी का नाम (3)
1	1-अचर्चा	श्री बी. पी. सिंह परिहार, सहायक संचालक, उद्यान
2	2-मोहनगढ़	श्री एस. के. कासदे, वाणिज्यकर अधिकारी, टीकमगढ़
3	3-बंधा	श्री पी. डी. नागर, क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, टीकमगढ़
4	4-मस्तापुर	श्री मनीष जैन, डी.पी.सी., जिला पंचायत, टीकमगढ़
5	5-गौरा	श्री ए. के. उपाध्याय, एस.डी.ओ., वन, टीकमगढ़
6	6-शिवराजपुर	श्री एस. सी. जैन, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, टीकमगढ़
7	7-वर्माताल	श्री ए. एस. लहगेरे, वनक्षेत्रपाल, टीकमगढ़
8	8-बछौड़ा	डॉ. आर. के. जैन, पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, टीकमगढ़
9	9-दिगौडा	श्री आर. के. थापक, वन क्षेत्रपाल, जतारा
10	10-बम्होरी खास	श्री अरूण कुमार दुबे, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यांत्रिकीय सेवा, टीकमगढ़
11	11-मरगुवां	श्री एच. एस. राजपूत, अनुविभागीय अधिकारी, ई. एण्ड एम. लोक निर्माण विभाग, टीकमगढ़
12	12-सतगुवां	श्री डी.डी. चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी, लाईट मशीनरी नल-कूप खण्ड, टीकमगढ़
13	13-मुहारा	श्री पी.एन. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, विद्युत मण्डल, टीकमगढ़
14	14-बैरवार	श्री एस.एस. परमार, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, जतारा
15	15-लारखुर्द	डॉ. एम.पी. जैन, अधीक्षक, सह-जिला आयुर्वेद अधिकारी, टीकमगढ़
16	16-करमौरा	डॉ. डी.डी. चढार, पशुचिकित्सा अधिकारी, टीकमगढ़
17	17-बम्होरी अब्दा	श्री सी.एल. कुम्हार, प्राचार्य, शा. कन्या उ.मा.वि., टीकमगढ़
18	18-चंदेरा	श्री एफ. जे. खान, महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रा. सड़क परियोजना, टीकमगढ़

## रिजर्व जोनल :

1. श्री चन्द्रसेन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जतारा.
2. श्री डॉ. के.पी. पटैरिया, सहायक पशु शल्य चिकित्सक, टीकमगढ़.
3. श्री अनिल विरथरे, एस.डी.ओ., जल संसाधन, टीकमगढ़.

क्र. (1)	जोन क्रमांक एवं नाम (2)	जोनल अधिकारी का नाम (3)
1	1-खरो	श्री के.के. वैद्य, सहायक संचालक, कृषि, टीकमगढ़
2	2-महेवा	श्री बी.एस. राजपूत, परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना, पलेरा
3	3-उपरारा	श्री के.एम. किरार, सहायक संचालक, कृषि, टीकमगढ़
4	4-सगरवारा	डॉ. मकबूल खान, सहायक शल्यज्ञ पशुचिकित्सा, पलेरा
5	5-पहाडी बुजुर्ग	श्री बी.पी. विदुआ, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, पलेरा
6	6-बम्होरीकला	श्री सुशील कुमार वर्मा, प्रबंधक तेजस्विनी परियोजना, टीकमगढ़
7	7-सिमराखुर्द	डॉ. बी.एस. राजपूत, प्राचार्य शा.महा. विद्यालय, टीकमगढ़
8	8-बराना	श्री जी.पी. तिवारी, एस.डी.ओ., कृषि विभाग, टीकमगढ़
9	9-कपासी	श्री ओ.पी. दुबे, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, बल्देवगढ़
10	10-बूदौर	श्री आर.एस. इंदुरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, टीकमगढ़
11	11-पाली	श्री चक्रेश जैन, परियोजना अधिकारी, रो.गां. योजना, टीकमगढ़
12	12-रामनगर बुजुर्ग	श्री विनोद रावत, सहायक यंत्री, रा.गांधी शि. मिशन, टीकमगढ़
13	13-हनौरा	श्री विजय त्रिपाठी, प्राचार्य शा. कन्या. उ.मा. विद्यालय, पलेरा

(1)	(2)	(3)
14	14-बखतपुरा	श्री सी.बी. चौरे, खाद्य अधिकारी, टीकमगढ़
15	15-लारौन	श्री के.एम. निजामी, सहायक यंत्री, म.प्र. विद्युत मण्डल, टीकमगढ़

**रिजर्व जोनल अधिकारी :**

1. श्री सिद्धगोपाल वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पलेरा.
2. श्री बी.एस. अम्ब, परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना, बल्देवगढ़.
3. श्री आलोक तिवारी, सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रा. सड़क परियोजना, टीकमगढ़.

क्र. (1)	जोन क्रमांक एवं नाम (2)	जोनल अधिकारी का नाम (3)
1	1-नैगुवा	श्री रामचन्द्र प्रताप सिंह, एस.डी.ओ. वन निवाडी
2	2-भेलसा	श्री डी.के. पौराणिक, वनक्षेत्रपाल, ओरछा
3	3-सिनराखास	श्री जे.पी. रावत, वनक्षेत्रपाल, ओरछा
4	4-ततारपुरा	श्री बी.एस. बरकडे, वनक्षेत्रपाल, निवाडी
5	5-बनियानी	डॉ. अजीत दीक्षित, पशु चि. सहा. उपसंचालक, पशुचिकित्सा
6	6-ककावनी खास	श्री मुकेश सिंह, सहायक यंत्री, म.प्र.वि. मण्डल, पृथ्वीपुर
7	7-बिरोरा खेत	श्री जे.सी. राय, सहायक यंत्री, ग्रा.यां. सेवा, पृथ्वीपुर
8	8-गोराखास	श्री एन.पी. यादव, सहा. यंत्री, म.प्र. राज्य वि.मं., पृथ्वीपुर

**रिजर्व जोनल अधिकारी :**

1. श्री टी.आर. शाक्य, सहायक यंत्री, पी.एच.ई.डी., टीकमगढ़
2. श्री आर.एस. इन्दुरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, टीकमगढ़.

क्र. (1)	जोन क्रमांक एवं नाम (2)	जोनल अधिकारी का नाम (3)
1	1-सुजानपुरा	श्री बी.एस. अम्ब, परि. अधि. बाल विकास परियोजना, बल्देवगढ़
2	2-लडबारा	श्री आर.बी.एस. जाटव, सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, टीकमगढ़
3	3-गनेशपुरा	श्री बी.एन. सपेरा, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, टीकमगढ़
4	4-देवरदा	श्री के.सी. चौधरी, सहायक यंत्री, पी.एच.ई.डी. उप संभाग, टीकमगढ़
5	5-चंद्रपुरा	श्री एस.के. जैन, सहायक आयुक्त, सहकारिता, टीकमगढ़
6	6-सिजौरा	श्री एच.सी.एल. तावरे, जिला योजना अधिकारी, टीकमगढ़
7	7-फुटेराचक्र	श्री पी.एन. असाटी, सहायक यंत्री, म.प्र.वि.मं. अधीक्षण यंत्री, टीकमगढ़
8	8-देरी	श्री एन.के. सिंह, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.वि.मं., अधीक्षण यंत्री, टीकमगढ़
9	9-कुडीला	श्री आर.पी. राजौरिया, सहायक यंत्री, म.प्र.वि.म.
10	10-सरकर	श्री एन.के. राजपूत, महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.सड़क विकास प्राधिकरण, टीकमगढ़
11	11-लारगुवा	श्री मिलेन्द्र सहस्त्रवृद्धे, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, टीकमगढ़
12	12-हटा	श्री राजेश मिश्रा, महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, टीकमगढ़

**रिजर्व जोनल अधिकारी :**

1. श्री संजय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बल्देवगढ़
2. श्री ए.के. उपाध्याय, एस.डी.ओ., वन टीकमगढ़.
3. श्री बी.पी. सिंह परिहार, सहायक संचालक उद्यान, टीकमगढ़.

क्र. (1)	जोन क्रमांक एवं नाम (2)	जोनल अधिकारी का नाम (3)
1	1-प्रतापपुरा	श्री डी.एस. राठौर, सहायक यंत्री, नगर पंचायत, ओरछा.
2	2-चंकरपुर	श्री सियाराम अहिरवार, कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर, ओरछा
3	3-बीजौर	श्री आर.आर.एस. बुन्देला, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, निवाड़ी
4	4-जुगयाई	श्री वीरेन्द्र पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, निवाड़ी
5	5-लड़वारी	श्री एस.सी. जैन, प्राचार्य, शा.महा.विद्या., निवाड़ी
6	6-टेहरका	श्री डी.के. नायक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, निवाड़ी
7	7-उरदौरा	श्री डी.के. दीक्षित, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, निवाड़ी.
8	8-थौना	श्री वी.डी. स्वर्णकार, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, निवाड़ी
9	9-कुडार	श्री ए.एस. पहाड़िया, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, निवाड़ी
10	10-सेंदरी	श्री राजेश पटैरिया, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, निवाड़ी

**रिजर्व जोनल अधिकारी :**

1. श्री जे.पी. गोस्वामी, अति. कार्य. यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, टीकमगढ़
2. डॉ. डी.के. विश्वकर्मा, पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ, टीकमगढ़.

अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.